

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, मंगलवार अक्टूबर 4, 1983/अश्विन 12, 1905
No 174] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वार्णिज्य मंत्रालय

नियंत्रण विभाग

राजपत्र सं. 19-ईटीसी (गणिता)/83

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1983

विषय — नाम की निर्दिष्ट नीति ।

मिम्बल सं. 6 8/P2-ई 1 — निर्दिष्ट (नियंत्रण), संशोधन आदेश सं. ई.
(सी) ओ 1977 एएम(275), दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 की ओर ध्यान
दिनांक दिया है ।

2 नाम की निर्दिष्ट नीति में बदल करने का निश्चय किया गया है ।

3. तदनुसार, आयात-निर्यात नीति, अप्रैल, 1983—मार्च, 1984, जिल्द-2 क पृष्ठ-34 पर अनुबन्ध-2 के पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“6 बांस के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी देखिए निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग ‘क’, अनुसूची-1 की क्रम सं. 33(iii)”

4. आयात-निर्यात क्रिया विधि पुस्तक, 1983-84 के पैरा 226 में निर्यात बन्द करने से पहले के मौदों से सम्बन्धित प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि निर्यात बन्द करने की तिथि से पहले 1983-84 के लिए बांस की कोई उच्चतम सीमा रिहा नहीं की गई थी ।

प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No 49-ETC(PN)/83

New Delhi, the 4th October, 1983

Subject:—Export Policy of Bamboo

F. No. 6/8/82-EL.—Attention is invited to Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(275) dated the 4th October, 1983

2. It has been decided to ban export of Bamboo with immediate effect

3. Accordingly, the existing paragraph 6 in Annexure-II on page 34 of Volume-II of Import and Export Policy April 1983—March 1984 shall be substituted by the following paragraph :—

“6. Export of Bamboo shall not be allowed, vide Sl. No. 33(iii) of Part ‘A’, Schedule-I to the E(C)O, 1977.”

4. Provisions of paragraph 226 of Handbook of Import-Export Procedures 1983-84 relating to pre-ban commitment shall not be applicable as no ceiling of bamboo for 1983-84 was released before the date of ban.

P. C. IAIN, Chief Controller
Imports and Exports